

SOLUTION OF IONIC EQUILIBRIUM (ELEMENTARY)

IONIC EQUILIBRIUM-I

आयनिक साम्य-I

EXERCISE # 1

PART – I (भाग - I)

- A-1.** Polyprotic Arrhenius acids produce more than one H⁺ ion per acid molecule when dissolved in water. On removal of one H⁺ from an acid, we get its conjugate base. On addition of one H⁺ to a base, we get its conjugate acid.
हल. बहुप्रोटिक आरेनियस अम्ल प्रति अम्ल अनु एक H⁺ आयन की अपेक्षा अधिक आयन उत्पन्न करता है, जब जल में इसे घोलते हैं।
 अम्ल से एक H⁺ आयन को निकालने पर हमें संयुगमी क्षार प्राप्त होता है। क्षार में एक H⁺ आयन मिलाने पर हमें संयुगमी अम्ल प्राप्त होता है।

A-2. Acidic – NH₄⁺, CH₃COOH₂₊ (can donate H⁺ forming NH₃ & CH₃COOH, can't accept H⁺ due to existing positive charge).
 Basic – H₂PO₂²⁻, HPO₃²⁻ (can accept H⁺ forming H₃PO₂ and H₂PO₃⁻, but cannot donate H⁺ as H is not directly attached to O, so non-acidic).
 Amphiprotic – H₂PO₃⁻, H₂PO₄⁻, HPO₄²⁻ (can accept H⁺ forming H₃PO₃, H₃PO₄ and H₂PO₄⁻ & can donate H⁺ forming HPO₃²⁻, HPO₄²⁻ & PO₄³⁻ respectively).
हल. अम्लीय – NH₄⁺, CH₃ COOH₂₊ (H⁺ आयन दान करके NH₃ तथा CH₃COOH बना सकते हैं, उत्तेजित धनावेश के कारण H⁺ ग्रहण नहीं कर सकते हैं।)
 क्षारीय – H₂PO₂⁻, HPO₃²⁻ (H⁺ आयन ग्रहण करके H₃PO₂ तथा H₂PO₃⁻ बना सकते हैं, लेकिन H⁺ दान नहीं कर सकते हैं क्योंकि H, O से सीधा जुड़ा हुआ नहीं है, अतः अनअम्लीय).
 उभयप्रोटिक – H₂PO₃⁻, H₂PO₄⁻, HPO₄²⁻ (H⁺ आयन ग्रहण करके क्रमशः H₃PO₃, H₃PO₄ तथा H₂PO₄⁻ बना सकते हैं तथा H⁺ दान करके क्रमशः HPO₃²⁻, HPO₄²⁻ तथा PO₄³⁻ बना सकते हैं)।

A-3. H₂O upon dissociation produces both H⁺ and OH⁻ ions ; both donates and accepts H⁺ forming OH⁻ and H₃O⁺ respectively ; can donate lone pair but cannot accept lone pair due to non-availability of vacant orbitals on it.
हल. H₂O वियोजन पर H⁺ तथा OH⁻ दोनों आयन उत्पन्न करता है; दोनों H⁺ दान करके तथा ग्रहण करके क्रमशः OH⁻ तथा H₃O⁺ बनाता है ; यह एकाकी युग्म दान कर सकता है लेकिन इस पर रिक्त कक्षकों की अनुपलब्धता के कारण एकाकी युग्म ग्रहण नहीं कर सकता है।

B-1. K = [NH₄⁺] [NH₂⁻] = 10⁻³⁰

$$[\text{NH}_2^-] = [\text{NH}_4^+] = 10^{-15} \text{ M} \quad (\because 2\text{NH}_3 \rightleftharpoons \text{NH}_4^+ + \text{NH}_2^-)$$

 No. of NH₂⁻ ions (NH₂⁻ आयनों की संख्या) = $\left(\frac{10^{-15} \text{ mole}}{\text{L}} \right) \left(\frac{1}{10^6 \text{ mm}^3} \right) \left(\frac{6 \times 10^{23} \text{ ions}}{\text{mole}} \right) = 600 \text{ ions / mm}^3$


C-1. $K_a = \frac{K_w}{K_b} = \frac{10^{-14}}{4 \times 10^{-10}} = 2.5 \times 10^{-5}$
 $pK_a = 5 - \log 2.5 = 4.6$

C-2. (i) $\text{HPO}_4^{2-} \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{PO}_4^{3-}; K_{eq} = K_{a_3}$ of H₃PO₄ = 10⁻¹²
 (ii) $K_a(\text{H}_2\text{PO}_4^-) \times K_b(\text{HPO}_4^{2-}) = K_w = 10^{-14}$. So, $10^{-8} \times K_b(\text{HPO}_4^{2-}) = 10^{-14}$. Therefore, $K_b(\text{HPO}_4^{2-}) = 10^{-6}$.
 (iii) $K_a(\text{H}_3\text{PO}_4) \times K_b(\text{H}_2\text{PO}_4^-) = K_w = 10^{-14}$. So, $10^{-3} \times K_b(\text{H}_2\text{PO}_4^-) = 10^{-14}$. Therefore, $K_b(\text{H}_2\text{PO}_4^-) = 10^{-11}$.

(iv) K_b of PO_4^{3-} (K_{b_3}) = $\frac{K_w}{K_{a_3}}$, K_b of HPO_4^{2-} (K_{b_2}) = $\frac{K_w}{K_{a_2}}$ and K_b of H_2PO_4^- (K_{b_1}) = $\frac{K_w}{K_{a_1}}$.

Since order of K_a is $K_{a_1} > K_{a_2} > K_{a_3}$, so order of K_b is $K_{b_1} < K_{b_2} < K_{b_3}$.

हल.



$$(ii) K_a (\text{H}_2\text{PO}_4^-) \times K_b (\text{HPO}_4^{2-}) = K_w = 10^{-14}. \text{ अतः, } 10^{-8} \times K_b (\text{HPO}_4^{2-}) = 10^{-14}. \text{ इस प्रकार, } K_b (\text{HPO}_4^{2-}) = 10^{-6}.$$

$$(iii) K_a (\text{H}_3\text{PO}_4) \times K_b (\text{H}_2\text{PO}_4^-) = K_w = 10^{-14}. \text{ अतः, } 10^{-3} \times K_b (\text{H}_2\text{PO}_4^-) = 10^{-14}. \text{ इस प्रकार, } K_b (\text{H}_2\text{PO}_4^-) = 10^{-11}.$$

(iv) K_b, PO_4^{3-} (K_{b_3}) = $\frac{K_w}{K_{a_3}}$; K_b, HPO_4^{2-} (K_{b_2}) = $\frac{K_w}{K_{a_2}}$ तथा $K_b, \text{H}_2\text{PO}_4^-$ (K_{b_1}) = $\frac{K_w}{K_{a_1}}$.

चूंकि K_a का क्रम $K_{a_1} > K_{a_2} > K_{a_3}$ है, अतः K_b का क्रम $K_{b_1} < K_{b_2} < K_{b_3}$ है।

D-1.

(i) 0.001 M HNO_3:	$\text{HNO}_3 \longrightarrow \text{H}^+ + \text{NO}_3^-$
t=0	10 ⁻³ M 0 0
t=eq (साम्य)	0 10 ⁻³ 10 ⁻³
∴	pH = - log 10 ⁻³ = 3.
(ii) 0.005 M H_2SO_4:	$\text{H}_2\text{SO}_4 \longrightarrow \text{SO}_4^{2-} + 2\text{H}^+$
t=0	0.005 M 0 0
t=eq (साम्य)	0 0.005 10 ⁻²
∴	pH = - log(10 ⁻²) = 2.
(iii) 0.01 M KOH:	$\text{KOH} \longrightarrow \text{K}^+ + \text{OH}^-$
t=0	10 ⁻² M 0 0
t=eq (साम्य)	0 10 ⁻² 2 × 10 ⁻² .
∴	[OH ⁻] = 10 ⁻² M
∴	pOH = 2
∴	pH = 14 - 2 = 12.
(iv) 10⁻⁸ M NaOH:	$\text{NaOH} \longrightarrow \text{Na}^+ + \text{OH}^-$
t=0	10 ⁻⁸ M 0 0
t=eq (साम्य)	0 10 ⁻⁸ 10 ⁻⁸ .
t=eq (साम्य)	$\text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{H}^+ + \text{OH}^-$
	x x
∴	So, in solution, [OH ⁻] = (10 ⁻⁸ + x) M and [H ⁺] = x
अतः विलयन में, [OH ⁻] = (10 ⁻⁸ + x) M तथा [H ⁺] = x	
$K_w = 10^{-14} = [\text{H}^+] [\text{OH}^-] \Rightarrow x(10^{-8} + x) = 10^{-14}$	
$\Rightarrow x = 9.5 \times 10^{-8} = [\text{H}^+] \quad \therefore \text{pH} = 7.022$	
(v) 0.0008 M Ba(OH)₂:	$\text{Ba(OH)}_2 \longrightarrow \text{Ba}^{2+} + 2\text{OH}^-$
t=0	8 × 10 ⁻⁴ M 0 0
t=eq (साम्य)	0 8 × 10 ⁻⁴ 2 × 8 × 10 ⁻⁴ .
∴	[OH ⁻] = 16 × 10 ⁻⁴ M.
∴	pOH = 2.8.
∴	pH = 11.2.

D-2.

(i) $[\text{TlOH}] = \frac{2.21}{221 \times 2} = 5.0 \times 10^{-3}$. (mol. wt. TlOH = 221).

$$\therefore \text{pOH} = \log[\text{OH}^-] = -\log 5.0 \times 10^{-3} = 2.3;$$

$$\therefore \text{pH} = 11.7.$$

(ii) $[\text{H}^+] = 2 \times [\text{H}_2\text{SO}_4] = 2 \times \frac{0.49 \times 10}{98} = 0.1 \text{ M}$

$$\therefore \text{pH} = 1.$$

(iii) $[\text{OH}^-] = 2 \times [\text{Sr(OH)}_2] = 2 \times \frac{1/1000}{4} = 5 \times 10^{-4} \text{ M}$

$$\therefore \text{pOH} = 4 - \log 5 = 3.3$$

$$\therefore \text{pH} = 14 - 3.3 = 10.7.$$

(iv) $[HCl] \text{ formed (निर्मित } [HCl]) = \frac{1 \times 12}{1000} = 12 \times 10^{-3} \text{ M. (} M_1V_1 = M_2V_2 \text{)}$
 $\therefore [H^+] = 12 \times 10^{-3} \text{ M ; pH} = 1.92.$

D-3. Millimoles of H^+ (H^+ के मिलीमोल) $= 10 \times 0.2 + 40 \times 0.1 \times 2 = 10.$

So, $[H^+] = \frac{10}{50} \text{ M.}$
 $\therefore \text{pH} = 0.7.$

D-4. (a) Millimoles of OH^- $= 20 \times 0.2 \times 2 = 8.$

Millimoles of H^+ $= 30 \times 0.1 \times 1 = 3$

$\therefore \text{Millimoles of } OH^- \text{ left} = 8 - 3 = 5$

$[OH^-] = \frac{5}{50} = \frac{1}{10} \text{ M.}$

$\therefore pOH = \log 10 = 1. \quad \therefore pH = 13.$

(b) Millimoles of $H^+ = 2 \times 0.1 = 0.2.$

$\therefore \text{Millimoles of } OH^- = 10 \times 0.01 \times 2 = 0.2.$

Solution is neutral and pH = 7.

(c) Millimoles of $H^+ = 10 \times 0.1 \times 2 = 2.$

Millimoles of $OH^- = 10 \times 0.1 \times 1 = 1$

$\therefore \text{Millimoles of } H^+ \text{ left} = 1$

$[H^+] = 1/20 = 5 \times 10^{-2} \text{ M.}$

$\therefore \text{pH} = 1.3.$

हल. (a) OH^- के मिलीमोल $= 20 \times 0.2 \times 2 = 8.$

H^+ के मिलीमोल $= 30 \times 0.1 \times 1 = 3$

$\therefore \text{शेष बचे } OH^- \text{ के मिलीमोल} = 8 - 3 = 5$

$[OH^-] = \frac{5}{50} = \frac{1}{10} \text{ M.}$

$\therefore pOH = \log 10 = 1. \quad \therefore pH = 13.$

(b) H^+ के मिलीमोल $= 2 \times 0.1 = 0.2.$

& OH^- के मिलीमोल $= 10 \times 0.01 \times 2 = 0.2.$

अतः, विलयन उदासीन होता है तथा pH = 7 होती है

(c) H^+ के मिलीमोल $= 10 \times 0.1 \times 2 = 2.$

OH^- के मिलीमोल $= 10 \times 0.1 \times 1 = 1$

$\therefore \text{शेष बचे } H^+ \text{ के मिलीमोल} = 1$

$[H^+] = 1/20 = 5 \times 10^{-2} \text{ M.}$


$\therefore \text{pH} = 1.3.$

E-1. $K_a = \frac{C\alpha^2}{1-\alpha} \quad \& \quad \alpha = \frac{1.3}{100} = 0.013$

$C = 0.1 \text{ M}$

$\alpha < 0.1 \text{ therefore (अतः) } K_a = c\alpha^2$

$= 0.1 \times (0.013)^2 = 1.69 \times 10^{-5}$



$[H^+] = K_a \times \frac{[HA]}{[A^-]}$


$\therefore pH = pK_a + \log \frac{[A^-]}{[HA]} = pK_a + \log \frac{c\alpha}{c(1-\alpha)}$

$\Rightarrow pH = pK_a + \log \left(\frac{\alpha}{1-\alpha} \right) = pK_a - \log \left(\frac{1-\alpha}{\alpha} \right)$

$$\Rightarrow \log\left(\frac{1-\alpha}{\alpha}\right) = pK_a - pH.$$

$$\Rightarrow \left(\frac{1-\alpha}{\alpha}\right) = 10^{(pK_a - pH)}$$

$$\Rightarrow \alpha = \frac{1}{1 + 10^{(pK_a - pH)}}$$



$$t=0 \quad 1 \text{ M} \quad 0 \quad 0$$

$$t=\text{eq} \quad [1-\alpha] \quad \alpha \quad \alpha$$

$$\therefore \frac{\alpha^2}{1-\alpha} = K_b \quad \text{Expecting } \alpha \ll 1 \quad \therefore \alpha^2 = 2.5 \times 10^{-5} \Rightarrow \alpha = 5 \times 10^{-3}$$


$$\therefore [\text{OH}^-] = 5 \times 10^{-3} \text{ M} \Rightarrow \text{pOH} = 3 - \log 5 \Rightarrow \text{pOH} = 2.3 \Rightarrow \text{pH} = 11.7$$

Note :

(i) Volume of solution given in question has no significance.

(ii) After getting α value as negligible, direct relation : $\text{pOH} = \frac{1}{2}(pK_b - \log C)$ could also be used.

हल.



$$t=0 \quad 1 \text{ M} \quad 0 \quad 0$$

$$t = \text{साम्य} \quad [1-\alpha] \quad \alpha \quad \alpha$$

$$\therefore \frac{\alpha^2}{1-\alpha} = K_b \quad \text{Expecting (आपेक्षिक रूप से) } \alpha \ll 1 \quad \therefore \alpha^2 = 2.5 \times 10^{-5} \Rightarrow \alpha = 5 \times 10^{-3}$$

$$\therefore [\text{OH}^-] = 5 \times 10^{-3} \text{ M} \Rightarrow \text{pOH} = 3 - \log 5 \Rightarrow \text{pOH} = 2.3 \Rightarrow \text{pH} = 11.7$$

टिप्पणी :

(i) प्रश्न में दिये गये विलयन का आयतन सार्थक नहीं है।

(ii) α का मान नगण्य मानने के पश्चात् सीधा सम्बन्ध : $\text{pOH} = \frac{1}{2}(pK_b - \log C)$ भी प्रयुक्त हो सकता है।

E-4. Because HCl is strong acid. (क्योंकि HCl प्रबल अम्ल है।)

F-1. (a) $\text{C}_2\text{H}_5\text{O}^- + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{C}_2\text{H}_5\text{OH} + \text{OH}^-$. (Basic solution क्षारीय विलयन)

(b) $\text{Cu}^{+2} + 2\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{Cu}(\text{OH})_2 \downarrow + 2\text{H}^+$. (Acidic solution अम्लीय विलयन)

(c) $\text{SO}_3^{2-} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{HSO}_3^- + \text{OH}^-$. (Basic solution क्षारीय विलयन)

(d) $\text{F}^- + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{HF} + \text{OH}^-$. (Basic solution क्षारीय विलयन)

(e) $\text{NH}_4^+ + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O} + \text{H}^+$. (Acidic solution अम्लीय विलयन)

(f) $\text{CH}_3\text{COONa} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{COOH} + \text{Na}^+ + \text{OH}^-$. (Basic solution क्षारीय विलयन)

(g) $\text{KNO}_3 + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{K}^+ + \text{NO}_3^- + \text{H}_2\text{O}$. (Neutral solution उदासीन विलयन)

(h) $\text{NaOCl} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{HOCl} + \text{Na}^+ + \text{OH}^-$. (Basic solution क्षारीय विलयन)

(i) $\text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{HCO}_3^- + 2\text{Na}^+ + \text{OH}^-$. (Basic solution क्षारीय विलयन)

(j) $\text{ZnCl}_2 + 2\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{Zn}(\text{OH})_2 \downarrow + 2\text{Cl}^- + 2\text{H}^+$. (Acidic solution अम्लीय विलयन)

F-2. Salt of WASB, Expecting $h \ll 1$, $h = \sqrt{\frac{K_h}{C}} = \sqrt{\frac{10^{-14}/2 \times 10^{-5}}{0.2}} = 5 \times 10^{-5}$ (negligible)

∴ Using direct formula, $\text{pH} = \frac{1}{2}(\text{pK}_w + \text{pK}_a + \log C) = 9$.

WASB का लवण, आपेक्षिक रूप से $h \ll 1$, $h = \sqrt{\frac{K_h}{C}} = \sqrt{\frac{10^{-14}/2 \times 10^{-5}}{0.2}} = 5 \times 10^{-5}$ (नगण्य)

∴ सीधा सूत्र प्रयुक्त करने पर, $\text{pH} = \frac{1}{2}(\text{pK}_w + \text{pK}_a + \log C) = 9$.

- F-3. $C_5H_5NH^+Cl^-$ It is salt of SAWB
Pyridinium ion on hydrolysis will produce H_3O^+ .
 $\therefore [H_3O^+] = \text{antilog} (-2.75) = Ch = 0.25 \text{ h}$
 h comes negligible (< 0.1)

$$\therefore pH = 7 - \frac{1}{2} pK_b - \frac{1}{2} \log C \Rightarrow pH = 7 - \frac{1}{2} pK_b - \frac{1}{2} \log 0.25$$

$$\Rightarrow pK_b = 9.1$$

$$K_b = \text{Antilog} (-9.1) = 8 \times 10^{-10}$$

हल $C_5H_5NH^+ Cl^-$ यह SAWB का लवण है।
पिरीडिनीयम आयन, जलअपघटन पर H_3O^+ बनाएगा।

$$\therefore [H_3O^+] = \text{प्रतिलघुगुणक} (-2.75) = Ch = 0.25 \text{ h}$$

$$h \text{ नगण्य आ जाता है} (< 0.1)$$

$$\therefore pH = 7 - \frac{1}{2} pK_b - \frac{1}{2} \log C \Rightarrow pH = 7 - \frac{1}{2} pK_b - \frac{1}{2} \log 0.25$$

$$\Rightarrow pK_b = 9.1$$

$$K_b = \text{प्रतिलघुगुणक} (-9.1) = 8 \times 10^{-10}$$

- F-4. $pH = 7 + \frac{1}{2} pK_a - \frac{1}{2} pK_b$
 $K_a = 1.6 \times 10^{-5}$ and $K_b = 1.6 \times 10^{-5}$
 $\therefore pH = 7 + \frac{1}{2} pK_a - \frac{1}{2} pK_b = 7$

$$\text{Now degree of hydrolysis} = h = \sqrt{\frac{K_w}{K_a K_b}} = 6.25 \times 10^{-3} \text{ (expecting } h << 1 \text{ & it comes the same)}$$

% hydrolysis = **0.625%**

- हल. $pH = 7 + \frac{1}{2} pK_a - \frac{1}{2} pK_b$
 $K_a = 1.6 \times 10^{-5}$ तथा $K_b = 1.6 \times 10^{-5}$
 $\therefore pH = 7 + \frac{1}{2} pK_a - \frac{1}{2} pK_b = 7$

$$\text{जल अपघटन की मात्रा} = h = \sqrt{\frac{K_w}{K_a K_b}} = 6.25 \times 10^{-3} \text{ (} h << 1 \text{ मानते हुए और प्राप्त भी यही होता है)}$$

% जल अपघटन = **0.625%**


PART – II (भाग - II)

- A-1. The molecule shows three H atoms are replaceable, i.e., basicity of acid.
हल. अनु दर्शाता हैं कि तीन H परमाणु प्रतिस्थापित होते हैं अर्थात् अम्ल की क्षारकता कहलाती है।


- A-2. $NH_3.H_2O$ is a weak monoacidic base.
 $NH_3.H_2O$ दुर्बल एकल अम्लीय क्षार है।

- A-3. $HC_2O_4^- (aq) + PO_4^{3-} (aq) \rightleftharpoons HPO_4^{2-} (aq) + C_2O_4^{2-} (aq)$
Acid-1 base-2 base-1 acid-2
हल. $HC_2O_4^- (aq) + PO_4^{3-} (aq) \rightleftharpoons HPO_4^{2-} (aq) + C_2O_4^{2-} (aq)$
अम्ल-1 क्षार-2 क्षार-1 अम्ल-2

- A-4. Conjugate acid base pair are differ by an proton (H^+).
संयुग्मी अम्ल-क्षार युग्म एक प्रोटोन (H^+) द्वारा विभेदित होते हैं।



- A-5.** H_3BO_3 is weak, Lewis monobasic acid and shows the given equilibrium.



हल. H_3BO_3 दुर्बल लुईस एकक्षारीय अम्ल है तथा दिये गये साम्य को दर्शाता है।



- B-1.** Fact based (तथ्यात्मक)।

B-2. $[\text{OH}^-] = \sqrt{K_w}$ in pure water.

So as temperature increases K_w increases $\Rightarrow [\text{OH}^-]$ increases $\Rightarrow \text{pOH}$ decreases

हल. शुद्ध जल में, $[\text{OH}^-] = \sqrt{K_w}$

अतः ताप बढ़ाने पर K_w बढ़ेगा $\Rightarrow [\text{OH}^-]$ बढ़ेगा $\Rightarrow \text{pOH}$ कम होगी।

B-3. $\text{p}K_w = -\log K_w = -\log 1 \times 10^{-12} = 12.$

$$K_w = [\text{H}^+][\text{OH}^-] = 10^{-12}.$$

$$[\text{H}^+] = [\text{OH}^-]$$

$$\Rightarrow [\text{H}^+]^2 = 10^{-12}; [\text{H}^+] = 10^{-6}; \text{pH} = -\log[\text{H}^+] = -\log 10^{-6} = 6.$$

H_2O is neutral because $[\text{H}^+] = [\text{OH}^-]$ at 373 K even when pH = 6.

(D) is not correct at 373 K. Water cannot become acidic.

हल. $\text{p}K_w = -\log K_w = -\log 1 \times 10^{-12} = 12.$

$$K_w = [\text{H}^+][\text{OH}^-] = 10^{-12}.$$

$$[\text{H}^+] = [\text{OH}^-]$$

$$\Rightarrow [\text{H}^+]^2 = 10^{-12}; [\text{H}^+] = 10^{-6}; \text{pH} = -\log[\text{H}^+] = -\log 10^{-6} = 6.$$

H_2O उदासीन है क्योंकि 373 K पर $[\text{H}^+] = [\text{OH}^-]$ जबकि pH = 6. है।

(D) 373 K पर सही नहीं है। जल अम्लीय नहीं हो सकता है।

B-4. $K = [\text{HCOOH}_2^+] [\text{HCOO}^-] = 10^{-3} \times 10^{-3} = 10^{-6}$

C-1. $K_a = K_a$ of HF & $K_b = K_b$ of F^- .

$K_a \cdot K_b = K_w$ (since HF and F^- are conjugate acid-base pair)

$K_a \cdot K_b = K_w$ (चूंकि HF तथा F^- संयुग्मी अम्ल-क्षार युग्म है)

C-2. $K_a \cdot K_b = K_w$ (Valid only for conjugate acid-base pair, not for any weak acid and weak base).

हल. $K_a \cdot K_b = K_w$ (केवल संयुग्मी अम्ल-क्षार युग्म के लिये मान्य, किसी भी दुर्बल अम्ल तथा दुर्बल क्षार के लिये मान्य नहीं)।

D-1. $[\text{H}^+] = 0.016 \text{ M}$

$$[\text{H}^+] [\text{OH}^-] = 10^{-14} \Rightarrow [\text{OH}^-] = \frac{100 \times 10^{-16}}{16 \times 10^{-3}} = 6.25 \times 10^{-13} \text{ M}$$

D-2. Initial

$$\text{pH} = 12$$

$$[\text{H}^+] = 10^{-12} \text{ M}$$

$$[\text{OH}^-] = 10^{-2} \text{ M}$$

$$\text{Initial No. of mole of } \text{OH}^- = 10^{-2}$$

Final

$$\text{pH} = 11$$

$$[\text{H}^+] = 10^{-11} \text{ M}$$

$$[\text{OH}^-] = 10^{-3} \text{ M}$$

$$\text{Final No. of mole of } \text{OH}^- = 10^{-3}$$

$$\text{So number of mole of } \text{OH}^- \text{ removed} = [0.01 - 0.001] = 0.009$$

हल

प्रारम्भ अन्तिम

$$\text{pH} = 12$$

$$\text{pH} = 11$$

$$[\text{H}^+] = 10^{-12} \text{ M}$$

$$[\text{H}^+] = 10^{-11} \text{ M}$$

$$[\text{OH}^-] = 10^{-2} \text{ M}$$

$$[\text{OH}^-] = 10^{-3} \text{ M}$$

$$\text{OH}^- \text{ आयन के प्रारम्भिक मोलो की संख्या} = 10^{-2}$$

$$\text{OH}^- \text{ आयन के अन्तिम मोलो की संख्या} = 10^{-3}$$

$$\text{इसलिए } \text{OH}^- \text{ निष्कासित मोलो की संख्या} = [0.01 - 0.001] = 0.009$$

- D-3.** Factual. (तथ्यात्मक)

D-4. $[\text{H}^+] = \frac{10^{-2} + 10^{-4}}{2} = \frac{0.01010}{2} = 0.00505 \text{ M}$
 $\therefore \text{pH} = 3 - \log 5.05 \approx 2.3$ (Taking (लीजिए) $\log 5.05 \approx \log 5 \approx 0.7$)

D-5. Initial (प्रारम्भ में) $\Rightarrow [\text{OH}^-] = \frac{2}{200} = 10^{-2} \text{ M} \therefore \text{pH} = 12$
Final (अन्त में) $\Rightarrow [\text{OH}^-] = 10^{-2} + \frac{0.04}{40 \times 0.1} = 2 \times 10^{-2} \therefore \text{pH} = 12.3$
So, change (अतः परिवर्तन) = $12.3 - 12 = +0.3$

D-6. pH may have any value, depending upon the concentration of the acid and base. Nothing can be said definitely.

हल. pH का कोई भी मान हो सकता है, यह अम्ल तथा क्षार की सान्द्रता पर निर्भर करता है। निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते हैं।

D-7.	(a) HCl No. of mili eq. = $\frac{1}{10} \times 100 = 10$ So solution is Neutral	NaOH $\frac{1}{10} \times 100 = 10$
	(b) $\frac{1}{10} \times 55 = 5.5$ $[\text{H}^+] = \frac{1}{100} = 10^{-2} \text{ M}, \quad \text{pH} = 2$	$\frac{1}{10} \times 45 = 4.5$
	(c) $\frac{1}{10} \times 10 = 1$	$\frac{1}{10} \times 90 = 9$ Basic
	(d) $\frac{1}{5} \times 75 = 15$ $[\text{H}^+] = 0.1 \text{ M}, \quad \text{pH} = 1$	$\frac{1}{5} \times 25 = 5$
हल	(a) HCl मिली तुल्यांक की संख्या = $\frac{1}{10} \times 100 = 10$ इसलिए विलयन उदासीन है।	NaOH $\frac{1}{10} \times 100 = 10$
	(b) $\frac{1}{10} \times 55 = 5.5$ $[\text{H}^+] = \frac{1}{100} = 10^{-2} \text{ M}, \quad \text{pH} = 2$	$\frac{1}{10} \times 45 = 4.5$
	(c) $\frac{1}{10} \times 10 = 1$	$\frac{1}{10} \times 90 = 9$ क्षारीय
	(d) $\frac{1}{5} \times 75 = 15$ $[\text{H}^+] = 0.1 \text{ M}, \quad \text{pH} = 1$	$\frac{1}{5} \times 25 = 5$

E-1. As concentration of solution decreases, degree of dissociation of weak electrolyte increases.

हल. विलयन की सान्द्रता घटने पर दुर्बल विद्युत अपघट्य के वियोजन की मात्रा बढ़ती है।

E-2. Relative strengths of weak acids = $\sqrt{\frac{K_{a_1}}{K_{a_2}}}$

Assume C₁ and C₂ are same (Although not given).

$$\therefore \text{Relative strength} = \sqrt{\frac{K_{a_1}}{K_{a_2}}} = \sqrt{\frac{1.8 \times 10^{-4}}{1.8 \times 10^{-5}}}$$

Relative strength for HCOOH to CH₃COOH = $\sqrt{10}$: 1



हल. दुर्बल अम्ल का आपेक्षिक सामर्थ्य = $\sqrt{\frac{K_{a_1}}{K_{a_2}}}$

माना कि C₁ व C₂ समान हैं (यद्यपि दिया गया नहीं हैं।)

$$\therefore \text{आपेक्षिक सामर्थ्य} = \sqrt{\frac{K_{a_1}}{K_{a_2}}} = \sqrt{\frac{1.8 \times 10^{-4}}{1.8 \times 10^{-5}}}$$

HCOOH तथा CH₃COOH के लिए आपेक्षिक सामर्थ्य = $\sqrt{10}$: 1

E-3. $pH = \frac{1}{2}(pK_a - \log C) \Rightarrow 9 = pK_a + 1 \Rightarrow pK_a = 8 \Rightarrow K_a = 10^{-8}$



F-2. h = .03 C = 0.1 M

$$K_h = Ch^2 = 9 \times 10^{-5}$$

$$K_h = \frac{K_w}{K_a} = 9 \times 10^{-5} \Rightarrow K_a = \frac{10^{-14}}{9 \times 10^{-5}} = 1.11 \times 10^{-10} \approx 1 \times 10^{-10}$$

F-3. Solution of HCl & NH₄Cl will be acidic, solution of NaCl neutral whereas solution of NaCN will be basic.

हल. HCl व NH₄Cl का विलयन अम्लीय होगा, NaCl का विलयन उदासीन जबकि NaCN का विलयन क्षारीय होगा।

F-4. The degree of hydrolysis of a salt of weak acid and weak base is independent of concentration of salt solution.

हल. एक दुर्बल अम्ल व दुर्बल क्षार के लवण के जल अपघटन की मात्रा लवण विलयन की सान्द्रता पर निर्भर नहीं करती है।

EXERCISE # 2

PART – I (भाग - I)

1. Given density of formic acid = 1.15 g/cm³

∴ Weight of formic acid in 1 litre solution = 1.15×10^3 g

$$\text{Thus, } [HCOOH] = \frac{1.15 \times 10^3}{46} = 25 \text{ M}$$

Since in case of auto ionisation

$$[HCOO^-_2] = [HCOO^-] \text{ and } [HCOO^-][HCOO^-_2] = 10^{-6} \Rightarrow [HCOO^-] = 10^{-3}$$

$$\text{Now \% dissociation of HCOOH} = \frac{[HCOO^-] \times 100}{[HCOOH]} = \frac{10^{-3}}{25} \times 100 = 0.004\%.$$

हल. फॉर्मिक अम्ल का घनत्व = 1.15 g/cm³

∴ 1 लीटर विलयन में फॉर्मिक अम्ल का भार = 1.15×10^3 g

$$\text{इस प्रकार, } [HCOOH] = \frac{1.15 \times 10^3}{46} = 25 \text{ M}$$

चूंकि स्वायत्त विलयन की परिस्थिति में

$$[HCOO^-_2] = [HCOO^-] \text{ अथवा } [HCOO^-][HCOO^-_2] = 10^{-6} \Rightarrow [HCOO^-] = 10^{-3}$$

$$\text{अब HCOOH का \% वियोजन} = \frac{[HCOO^-] \times 100}{[HCOOH]} = \frac{10^{-3}}{25} \times 100 = 0.004\%.$$

2. $K_a = 10^{-6}$ for $\text{HA} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}_3\text{O}^+ + \text{A}^-$ Thus K for reverse reaction is $\frac{1}{10^{-6}} = 10^6$

हल. $\text{HA} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}_3\text{O}^+ + \text{A}^-$ के लिए $K_a = 10^{-6}$ इस प्रकार विपरीत अभिक्रिया के लिए $K, \frac{1}{10^{-6}} = 10^6$ होगा।

3. New concentration of HCl = $\frac{10^{-6}}{100} = 10^{-8} \text{ M}$

$[\text{H}^+] = 10^{-7} + 10^{-8}$ (approximately)
(Little less than 10^{-7} from water).

हल. HCl की नयी सान्द्रता = $\frac{10^{-6}}{100} = 10^{-8} \text{ M}$

$\text{H}^+ = 10^{-7} + 10^{-8}$ (लगभग)
(जल से 10^{-7} से थोड़ा कम)।

4. (A) At 25°C , $[\text{H}^+]$ in a solution of $10^{-8} \text{ M HCl} > 10^{-7} \text{ M}$. (25°C पर, 10^{-8} M HCl के विलयन में $[\text{H}^+] > 10^{-7} \text{ M}$)

(B) $[\text{H}^+] = 10^{-8} \text{ M}$.

(C) $[\text{OH}^-] = 4 \times 10^{-6} \text{ M} \Rightarrow [\text{H}^+] = 2.5 \times 10^{-9} \text{ M}$.

(D) $[\text{H}^+] = 10^{-9} \text{ M}$.


5. $[\text{H}^+] \text{ after mixing} = \frac{10^{-2} \times 10 + 10^{-4} \times 990}{1000} = \frac{0.1 + 0.0990}{1000} = \frac{0.1990}{1000} = 1.99 \times 10^{-4}$.

$\therefore \text{pH} = 4 - 0.3 = 3.7$

हल. मिश्रण के पश्चात् $[\text{H}^+] = \frac{10^{-2} \times 10 + 10^{-4} \times 990}{1000} = \frac{0.1 + 0.0990}{1000} = \frac{0.1990}{1000} = 1.99 \times 10^{-4}$.

$\therefore \text{pH} = 4 - 0.3 = 3.7$

6. $2 \times 10^{-3} = \frac{2.4 \times 10^{-2} \alpha^2}{1-\alpha} \Rightarrow 12\alpha^2 + \alpha - 1 = 0 \Rightarrow \alpha = 0.25$



t=0 10^{-4}

0

0

t=eq $10^{-4}(1-\alpha)$

$10^{-4}\alpha$

$10^{-4}\alpha$

$$K_b = \frac{[\text{B}^+][\text{OH}^-]}{[\text{BOH}]} = \frac{10^{-4}\alpha \cdot 10^{-4}\alpha}{10^{-4}(1-\alpha)} \quad \dots\dots(1)$$

Expecting $\alpha \ll 1$, $10^{-4} = 10^{-4}\alpha^2 \quad \therefore \alpha = 1$ (not negligible)


So, solve quadratic (1) :

$$10^{-4} = \frac{10^{-4}\alpha \cdot 10^{-4}\alpha}{10^{-4}(1-\alpha)} \Rightarrow \alpha^2 + \alpha - 1 = 0$$

$$\alpha = \frac{-1 \pm \sqrt{1+4}}{2} \Rightarrow \alpha = \frac{\sqrt{5}-1}{2} \approx 0.62.$$

$\therefore [\text{OH}^-] = C\alpha = 10^{-4} \times 0.62 = 6.2 \times 10^{-5} \text{ M}$

$\therefore \text{pOH} = 4.21 \quad \therefore \text{pH} = 9.79$.



t=0 10^{-4}

0

0

t= साम्य $10^{-4}(1-\alpha)$

$10^{-4}\alpha$

$10^{-4}\alpha$

$$K_b = \frac{[\text{B}^+][\text{OH}^-]}{[\text{BOH}]} = \frac{10^{-4}\alpha \cdot 10^{-4}\alpha}{10^{-4}(1-\alpha)} \quad \dots\dots(1)$$

अपेक्षाकृत रूप से $\alpha \ll 1$, $10^{-4} = 10^{-4}\alpha^2 \quad \therefore \alpha = 1$ (नगण्य नहीं)

अतः, द्विघात समीकरण (1) को हल करने पर :

$$10^{-4} = \frac{10^{-4} \alpha \cdot 10^{-4} \alpha}{10^{-4}(1-\alpha)} \Rightarrow \alpha^2 + \alpha - 1 = 0$$

$$\alpha = \frac{-1 \pm \sqrt{1+4}}{2} \Rightarrow \alpha = \frac{\sqrt{5}-1}{2} \approx 0.62.$$


$$\therefore [\text{OH}^-] = C\alpha = 10^{-4} \times 0.62 = 6.2 \times 10^{-5} \text{ M}$$

$$\therefore \text{pOH} = 4.21 \quad \therefore \text{pH} = 9.79.$$

8. Lesser the pH of solution of sodium salts, less is the hydrolysis of anion, stronger is the acid.

हल. सोडियम लवर्णों के विलयन की pH कम होने पर ऋणायन का जल अपघटन कम होता है, अतः अम्ल प्रबल होता है।

PART – II (भाग - II)




$K_{\text{eq.}}$ is very small, So reaction shift in backward direction.

(1) HB is more stronger acid than HA.

(2) A^- is more stronger base than B^- .

(3) B^- and HB are conjugate acid-base pair.



$K_{\text{साम्य}}$ बहुत छोटा है, इसलिए अभिक्रिया पश्च दिशा में विस्थापित होगी।


(1) HA की तुलना में HB अधिक प्रबल अम्ल है।

(2) B^- की तुलना में A^- अधिक प्रबल क्षार है।

(3) B^- और HB संयुग्मी अम्ल-क्षार युग्म है।



2. $[\text{OH}^-] = \frac{2 \times 10^{-12}}{10^{-2}} = 2 \times 10^{-10} \text{ M}$

$$\text{pOH} = 10 - \log 2 = 9.7.$$



$$\text{So, } [\text{H}^+] = [\text{OH}^-] = \text{C}\alpha = \frac{1000}{18} \times 3.6 \times 10^{-9}$$

$$\therefore \text{pH} = 7 - \log 2 = 6.7 \quad \text{and} \quad K_w = [\text{H}^+] [\text{OH}^-] = 4 \times 10^{14}$$



$$\text{इसलिए, } [\text{H}^+] = [\text{OH}^-] = \text{C}\alpha = \frac{1000}{18} \times 3.6 \times 10^{-9}$$

$$\therefore \text{pH} = 7 - \log 2 = 6.7 \quad \text{तथा} \quad K_w = [\text{H}^+] [\text{OH}^-] = 4 \times 10^{14}$$

4. As $V \rightarrow \infty$, effect of water dominates, so pH become 7.

हल. $V \rightarrow \infty$ पर, जल अपना प्रभाव दर्शाता है, अतः **pH 7** होगी।

5. For H_2O , $\text{pK}_a = \text{pK}_b$ & H_2O is the conjugate base of H_3O^+ . So for the conjugate acid base pair, $\text{pK}_a + \text{pK}_b = 14$. (at 25°C)

हल. H_2O के लिए, $\text{pK}_a = \text{pK}_b$ व H_2O , H_3O^+ का संयुग्मी क्षार है। इसलिए संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म के लिए $\text{pK}_a + \text{pK}_b = 14$. (25°C पर)

6. $\frac{\alpha_1}{\alpha_2} = \sqrt{\frac{C_2}{C_1}} \Rightarrow \frac{1}{3} = \sqrt{\frac{0.1}{0.1(1+V)}} \Rightarrow \frac{1}{9} = \frac{1}{1+V} \Rightarrow V = 8 \text{ L}$

7. $\frac{pH_{50\%}}{pH_{10\%}} = \frac{-\log\left(\frac{1}{2}\right)}{-\log\left(\frac{1}{10}\right)} = \frac{\log 2}{\log 10} = 0.3$



$$K_{eq.} = 10^9 = \frac{1}{K_h} \quad (\because \text{Hydrolysis is reverse of neutralization})$$

(\because जल अपघटन, उदासीनीकरण का विपरीत होता है)



$$[OH^-] = Ch = C \sqrt{\frac{K_h}{C}} = \sqrt{C K_h} = \sqrt{0.1 \times 10^{-9}} = 10^{-5} M$$

$$\therefore [H^+] = 10^{-9} M \therefore pH = 9$$

9. $[CH_3COOH] = Ch = 10^{-2} \sqrt{\frac{10^{-14}}{(1.8 \times 10^{-5})^2}} = \frac{10^{-2} \times 10^{-7}}{1.8 \times 10^{-5}} = \frac{10^{-4}}{1.8}$

$$\text{So, answer अतः उत्तर} = \frac{9 \times 10^5 \times 10^{-4}}{1.8} = 50.$$

PART – III (भाग - III)

1. Bronsted bases are proton acceptor and each Lewis base contain one or more electron pair and thus accept proton. On the other hand Bronsted acids are proton donor and may or may not be capable of accepting lone pair of electron, e.g., H_2SO_4 is Bronsted acid but not Lewis acid BF_3 is Lewis acid but not Bronsted acid. Most cations are acids and most anions are bases.

हल. ब्रॉन्स्टेड क्षार प्रोटोन ग्राही होते हैं तथा प्रत्येक लुईस क्षार एक अथवा एक से अधिक इलेक्ट्रॉन युग्म रखता है तथा इस प्रकार प्रोटोन ग्रहण करता है। दूसरी ओर ब्रॉन्स्टेड अम्ल प्रोटोन दाता होते हैं तथा इलेक्ट्रॉनों के एकाकी युग्म को रखने का सामर्थ्य रख भी सकते हैं और नहीं भी। उदाहरण के लिए H_2SO_4 ब्रॉन्स्टेड अम्ल हैं लेकिन लुईस अम्ल नहीं है। BF_3 लुईस अम्ल हैं लेकिन ब्रॉन्स्टेड अम्ल नहीं है। साथ ही अधिकांश धनायन अम्ल व अधिकांश ऋणायन क्षार होता है।

2. (A) It is weak acid. यह दुर्बल अम्ल है।

- (C) It is a strong base. यह प्रबल क्षार है।

3. On heating pure water the value of ionic product of water increases i.e., $K_w = 10^{-14}$ at $25^\circ C$ and at $100^\circ C$

$K_w = 10^{-12}$. Thus pH and pOH both becomes 6 at $100^\circ C$ (pH and pOH = 7 at $25^\circ C$).

हल. शुद्ध जल को गर्म करने पर जल के आयनिक गुणांक का मान बढ़ता है अर्थात् $25^\circ C$ पर $K_w = 10^{-14}$ तथा $100^\circ C$ पर $K_w = 10^{-12}$ हो जाता है। इस प्रकार $100^\circ C$ पर pH व pOH दोनों 6 हो जाते हैं। ($25^\circ C$ पर pH व pOH = 7).

4. In this solution, source of OH^- is water

$$\therefore C\alpha = [OH^-]$$

$$\alpha = \frac{10^{-9}}{1000/18} = 1.8 \times 10^{-11} M$$

$$\% \text{ ionisation} = 1.8 \times 10^{-9} \%$$

हल. इस विलयन में, OH^- का स्रोत जल है।

$$\therefore C\alpha = [OH^-]$$

$$\alpha = \frac{10^{-9}}{1000/18} = 1.8 \times 10^{-11} M$$


$$\text{प्रतिशत आयनन} = 1.8 \times 10^{-9} \%$$



	$\text{Sr(OH)}_2 +$	2HCl	\rightarrow	SrCl_2	$+$	$2\text{H}_2\text{O}$
initial m mol	0.2 V	0.2 V		0		
final m mol	0.1 V	0		0.1 V		

$$[\text{Sr(OH)}_2] = \frac{0.1 \text{ V}}{2 \text{ V}} = 0.05$$


$$[\text{SrCl}_2] = \frac{0.1 \text{ V}}{2 \text{ V}} = 0.5$$



$$[\text{Sr}^{2+}]_{\text{total}} = 0.1 \text{ M}$$

$$[\text{Cl}^-] = 0.1 \text{ M}$$

$$[\text{OH}^-] = 0.1 \text{ M}, \text{ pH} = 13.$$



	$\text{Sr(OH)}_2 +$	2HCl	\rightarrow	SrCl_2	$+$	$2\text{H}_2\text{O}$
प्रारम्भिक m mol	0.2 V	0.2 V		0		
अन्तिम m mol	0.1 V	0		0.1 V		

$$[\text{Sr(OH)}_2] = \frac{0.1 \text{ V}}{2 \text{ V}} = 0.05$$

$$[\text{SrCl}_2] = \frac{0.1 \text{ V}}{2 \text{ V}} = 0.5$$



$$[\text{Sr}^{2+}]_{\text{कुल}} = 0.1 \text{ M}$$

$$[\text{Cl}^-] = 0.1 \text{ M}$$

$$[\text{OH}^-] = 0.1 \text{ M}, \text{ pH} = 13.$$

6. On the basis of Ostwald dilution law, number of H^+ ions will increase but increase in volume will be more. Therefore, $[\text{H}^+]$ decreases, pH increases.

हल. ऑस्टवॉल्ड तनुता नियम के आधार पर, H^+ आयनों की संख्या में वृद्धि होगी परन्तु आयतन में अधिक वृद्धि होगी। इसलिए $[\text{H}^+]$ में कमी तथा pH में वृद्धि होगी।

7. Let BA be this salt $\text{BA} \rightarrow \text{B}^+ + \text{A}^-$

A^- does not undergo hydrolysis because HA is strong acid. B^+ undergoes hydrolysis

$$h = \sqrt{\frac{K_h}{C}} \quad h = \text{degree of hydrolysis where } K_h = \text{Hydrolysis constant} = \frac{K_w}{K_b}.$$

$h \propto \sqrt{K_h}$ greater the hydrolysis constant greater the h(degree of hydrolysis).

$$h \propto \frac{1}{\sqrt{K_b}} \quad \text{greater the } K_b \text{ lesser the } h.$$

Hydrolysis is endothermic, K_h increases with temperature and h also increase with temperature.

$$h \propto \sqrt{V} \quad V = \text{volume of salt solution hence } h \text{ increases with dilution. } K_h = \frac{K_w}{K_b}$$

Both K_w and K_b change with temperature, hence K_h changes with temperature.

Hence, statement(B) is correct. h increases if K_b decreases, statement(C) correct.

It is found that as temperature increase, K_w and K_b increase but increase in K_w is greater than increase in K_b .

Hence, h increases with increase in temperature. or h decrease in temperature., hence statement (D) is correct.

(D) is not correct from explanation of (B).

हल. माना BA लवण है $\text{BA} \rightarrow \text{B}^+ + \text{A}^-$

A^- का जल अपघटन नहीं होता है क्योंकि HA प्रबल होता है B^+ का जल अपघटन होता है।

$$h = \sqrt{\frac{K_h}{C}} \quad h = \text{जल अपघटन की मात्रा जहाँ } K_h = \text{जल अपघटन नियतांक} = \frac{K_w}{K_b}.$$

$$h \propto \sqrt{K_h} \quad \text{जितना अधिक जल अपघटन नियतांक होगा उतना } h \text{ अधिक होगा (जल अपघटन की मात्रा)}$$

$$h \propto \frac{1}{\sqrt{K_b}} \quad K_b \text{ जितना अधिक } h \text{ उतना ही कम होगा}$$

जलअपघटन ऊर्ध्वाशेषी होता है ताप बढ़ने के साथ K_h बढ़ता है तथा साथ ही ताप बढ़ने के साथ h में भी वृद्धि होती है।

$$h \propto \sqrt{V} \quad V = \text{लवण विलयन का आयतन अतः तनुता के साथ } h \text{ में वृद्धि होगी. } K_h = \frac{K_w}{K_b}$$

K_w व K_b तापमान के साथ परिवर्तित होते हैं, अतः K_h तापमान के साथ परिवर्तित हो जाता है।

अतः कथन (B) सही है। h में वृद्धि होती है यदि K_b कम होता है अतः कथन (C) सही है।


यह ज्ञात होता है कि तापमान वृद्धि के साथ K_w व K_b में वृद्धि होती है K_w में वृद्धि K_b में वृद्धि से अधिक होती है।

अतः h में वृद्धि के साथ तापमान में वृद्धि होती है।

अतः कथन (D) सही है।

(D), (B) की सही व्याख्या नहीं करता है।


8. (A) $[H^+] = 10^{-2}$ and $[OH^-] = 10^{-2}$



This leads complete neutralisation (इसके कारण पूर्णतः उदासीनीकरण होता है।)

$$\text{so (अतः), } pH = 7 = \frac{2+12}{2}$$

- (D) $[H^+] = 10^{-5}$ and $[OH^-] = 10^{-5}$



This leads complete neutralisation (इसके कारण पूर्णतः उदासीनीकरण होता है।)

$$\text{so (अतः), } pH = 7 = \frac{5+9}{2}$$

PART – IV (भाग - IV)

1. Initial pH = 4

$$[H^+] = 10^{-4}$$

$$N_1V_1 = N_2V_2 \Rightarrow 10^{-4} = N_2 \times \left[1 + \frac{7}{3} \right]$$

$$10^{-4} = N_2 \times \frac{10}{3} \Rightarrow N_2 = 3 \times 10^{-5} > 10^{-6}$$

So $[H^+]$ of water is not consider

$$[H^+] = 3 \times 10^{-5}$$

$$\text{So } pH = 5 - \log 3 = 5 - 0.48 = 4.52$$

हल. प्रारम्भ pH = 4

$$[H^+] = 10^{-4}$$

$$N_1V_1 = N_2V_2 \Rightarrow 10^{-4} = N_2 \times \left[1 + \frac{7}{3} \right]$$

$$10^{-4} = N_2 \times \frac{10}{3} \Rightarrow N_2 = 3 \times 10^{-5} > 10^{-6}$$

इसलिए जल के $[H^+]$ नहीं माने जायेगी।

$$[H^+] = 3 \times 10^{-5}$$

$$\text{इसलिए } pH = 5 - \log 3 = 5 - 0.48 = 4.52$$

2. pH = 6

$$[H^+] = 10^{-6}$$

$$N_1V_1 = N_2V_2$$

$$\Rightarrow 10^{-6} \times 1 = N_2 \left[1 + \frac{7}{3} \right] \Rightarrow 10^{-6} = N_2 \times \frac{10}{3}$$

$$N_2 = \frac{3}{10} \times 10^{-6} \Rightarrow N_2 = 3 \times 10^{-7}$$

$$[H^+] < 10^{-6}$$

So $[H^+]$ of water is also added. As common ion effect on H_2O is neglected so (इसलिए जल की $[H^+]$ भी जोड़ी जायेगी क्योंकि जल का समाधान प्रभाव नगण्य है। इसलिए) $[H^+] = 3 \times 10^{-7} + 10^{-7} = 4 \times 10^{-7} M$

$$\Rightarrow pH = 7 - \log 4 = 7 - 0.60 = 6.4$$

3. Facutal (तथ्यात्मक)

4. Since K_a of CH_3COOH & K_b of $NH_3 \cdot H_2O$ are same so degree of hydrolysis of CH_3COO^- & NH_4^+ are exactly same.


हल. चूंकि CH_3COOH का K_a तथा $NH_3 \cdot H_2O$ का K_b समान है इसलिए जल अपघटन के वियोजन की मात्रा CH_3COO^- तथा NH_4^+ के लिए बिल्कुल समान है।

EXERCISE # 3


PART – I (भाग - I)

JEE(MAIN) OFFLINE PROBLEMS

1. Conjugate base is formed by the removal of one H^+ from acid :





हल. अम्ल से एक H^+ आयन हटाने पर, संयुगमी क्षार का निर्माण होता है :



2. Conjugate base of OH^-

हल. OH^- का संयुगमी क्षार



3. $pH = -\log[H^+] \Rightarrow [H^+] = \text{antilog } (-pH) = \text{antilog } (-5.4) = 3.98 \times 10^{-6}$

हल. $pH = -\log[H^+] \Rightarrow [H^+] = \text{प्रतिलघुणक } (-pH) = \text{प्रतिलघुणक } (-5.4) = 3.98 \times 10^{-6}$

4. $H_2A \rightleftharpoons H^+ + HA^- ; \quad K_1 = \frac{[H^+] [HA^-]}{[H_2A]} = 1 \times 10^{-5}$

$HA^- \rightleftharpoons H^+ + A^{2-} ; \quad K_2 = 5 \times 10^{-10} = \frac{[H^+] [A^{2-}]}{[HA^-]}$

$$K = \frac{[H^+]^2 [A^{2-}]}{[H_2A]} = K_1 \times K_2 = 1 \times 10^{-5} \times 5 \times 10^{-15}$$

$$5. \quad pH = 7 + \frac{1}{2} pK_a - \frac{1}{2} pK_b = 7 + \frac{4.8}{2} - \frac{4.78}{2} = 7.01$$

6. In IInd equation $H_2PO_4^-$ gives one H^+ ion to H_2O therefore in the IInd equation it act as an acid.

हल. IInd समीकरण में $H_2PO_4^-$, H_2O को H^+ आयन देता है, इसलिए IInd समीकरण में यह अम्ल के समान कार्य करता है।

7. $HQ \rightleftharpoons H^+ + Q^-$

0.1

$$0.1 - x \quad x \quad x \\ pH = 3, [H^+] = 10^{-3}, \quad x = 10^{-3}$$

$$K_a = \frac{(x) \times (x)}{(0.1 - x)} = \frac{(10^{-3})^2}{0.1 - 10^{-3}} \approx \frac{10^{-6}}{0.1} = 10^{-5}$$

8. $\text{pH} = 1 \Rightarrow [\text{H}^+] = 10^{-1} = 0.1 \text{ M}$
 $\text{pH} = 2 \Rightarrow [\text{H}^+] = 10^{-2} = 0.01 \text{ M}$
 for dilution of HCl, (HCl की तनुता के लिए) $M_1V_1 = M_2V_2$
 $0.1 \times 1 = 0.01 \times V_2$
 $V_2 = 10 \text{ L}$
 Volume of water added = $10 - 1 = 9 \text{ litre}$
 (गिराये गये जल का आयतन = $10 - 1 = 9 \text{ लीटर}$)

9. Salt of weak acid and weak base
 दुर्बल अम्ल तथा दुर्बल क्षार का लवण

$$\text{pH} = \frac{1}{2}(\text{pk}_w + \text{pK}_a - \text{pK}_b) = \frac{1}{2}(14 + 3.2 - 3.4) = 6.9$$

10. Most basic salt in aq. solution is CH_3COOK it is salt of WASB

$$\text{and have pH} = 7 + \frac{(\text{pK}_a + \log c)}{2} \text{ i.e. pH} > 7$$

हल. जलीय विलयन में सर्वाधिक क्षारीय लवण (CH_3COOK) है, यह WASB लवण है।

$$\text{तथा इस प्रकार pH} = 7 + \frac{(\text{pK}_a + \log c)}{2} \text{ i.e. pH} > 7$$

JEE(MAIN) ONLINE PROBLEMS

3. Let volume of 1st solution = $V \text{ ml}$

$$\therefore \text{Volume of 2nd solution} = (800 - V) \text{ mL}$$

Amount of acid in 1st solution + Amount of acid in 2nd solution = Amount of acid in obtained solution.

$$\therefore \frac{45V}{100} + \frac{20(800 - V)}{100} = \frac{29.875(800)}{100}$$

$$\therefore V = 316$$

हल. मानाकि प्रथम विलयन का आयतन = $V \text{ ml}$

$$\therefore \text{द्वितीय विलयन का आयतन} = (800 - V) \text{ mL}$$

प्रथम विलयन में अम्ल की मात्रा + द्वितीय विलयन में अम्ल की मात्रा = प्राप्त होने वाले विलयन में अम्ल की मात्रा

$$\therefore \frac{45V}{100} + \frac{20(800 - V)}{100} = \frac{29.875(800)}{100}$$

$$\therefore V = 316$$

4. $[\text{H}^+]_{\text{final अंतिम}} = \frac{N_A V_A - N_B V_B}{V_A + V_B}$

$$\text{Final (अंतिम)} [\text{H}^+] = \frac{75 \times \frac{1}{5} - 25 \times \frac{1}{5}}{75 + 25} = \frac{15 - 5}{100} = \frac{10}{100}$$

$$[\text{H}^+]_f = 0.1 \text{ M}$$

$$[\text{PH}]_f = 1$$

IONIC EQUILIBRIUM-II**आयनिक सम्य-II****EXERCISE # 1****PART – I (भाग - I)**

B-1. (a) $pH = -\log K_a + \log \frac{[\text{CH}_3\text{COO}^-]}{[\text{CH}_3\text{COOH}]}$
 $\therefore pH = -\log 1.8 \times 10^{-5} + \log \frac{4.1 \times 60}{82 \times 4} = 4.74 + \log \frac{3}{4} = 4.62$



(b) $pOH = -\log K_b + \log \frac{[B^+]}{[BOH]}$
 $\therefore pOH = -\log 1.8 \times 10^{-5} + \log \frac{2.5}{0.5} = 4.74 + \log 5 = 5.44$
 $\therefore pH = 14 - pOH = 8.56$

हल. (a) हम रखते हैं $pH = -\log K_a + \log \frac{[\text{CH}_3\text{COO}^-]}{[\text{CH}_3\text{COOH}]}$
 $\therefore pH = -\log 1.8 \times 10^{-5} + \log \frac{4.1 \times 60}{82 \times 4} = 4.74 + \log \frac{3}{4} = 4.62$

(b) $pOH = -\log K_b + \log \frac{[B^+]}{[BOH]}$
 $\therefore pOH = -\log 1.8 \times 10^{-5} + \log \frac{2.5}{0.5} = 4.74 + \log 5 = 5.44$
 $\therefore pH = 14 - pOH = 8.56$


B-2. $pH = pK_a + \log \left[\frac{50 \times C}{50 \times 0.2} \right] \Rightarrow 4 = 5 + \log \frac{50 \times C}{50 \times 0.2}$
 $\Rightarrow \log \frac{C}{0.2} = -1 \Rightarrow \frac{C}{0.2} = 0.1 \Rightarrow C = 0.02 \text{ M}$

B-3. $pOH = 4.74 + \log \frac{0.1}{0.1} = 4.74$
 $\therefore pH = 9.26$




हल. $\text{pOH} = 4.74 + \log \frac{0.1}{0.1} = 4.74$

$\therefore \text{pH} = 9.26$



$$\text{pOH} = 4.74 + \log \frac{0.05}{0.15} = 4.26$$

$\therefore \text{pH} = 9.74$




$$\text{pOH} = 4.74 + \log \frac{0.15}{0.05} = 5.22$$

$\therefore \text{pH} = 8.78$


PART – II (भाग - II)

A-1. Factual (तथ्यात्मक)



n_i	1	0.5	0	0
n_f	0.5	0	0.5	0.5


This solution contains weak acid & its salt with strong base.
and thus acts as buffer.



1	0.5	0	0
0.5	0	0.5	0.5

यह विलयन, दुर्बल अम्ल व प्रबल क्षार के साथ इसका लवण रखता है, अतः बफर की तरह कार्य करता है।

A-3. Weak base should be in excess. दुर्बल क्षार आधिक्य में होना चाहिए।



B-2. $\text{pOH} = \text{pK}_b + \log \frac{[\text{Salt}]}{[\text{Base}]} = 4 + \log \frac{0.2}{0.1} \quad \therefore \text{pOH} = 4 + \log 2 \text{ and pH} = 10 - \log 2$

हल. $\text{pOH} = \text{pK}_b + \log \frac{[\text{लवण}]}{[\text{क्षार}]} = 4 + \log \frac{0.2}{0.1} \quad \therefore \text{pOH} = 4 + \log 2 \text{ तथा pH} = 10 - \log 2$

B-3. $K_a = 5 \times 10^{-10} \quad \text{pK}_a = 10 \log 5 = 9.3$

$$\text{pH} = \text{pK}_b + \log \left[\frac{\text{CN}^-}{\text{HCN}} \right]$$

$$9 = 9.3 + \log \left[\frac{5 \times V_{ml}}{10 \times 2} \right] \Rightarrow -0.3 = \log \left[\frac{V_{ml}}{4} \right]$$

$$0.3 = \log \left[\frac{4}{V_{ml}} \right] \Rightarrow \frac{4}{V_{ml}} = 2 \Rightarrow V_{ml} = 2 \text{ ml}$$

B-4. $\text{pOH} = -\log K_b + \log \frac{[\text{Salt}]}{[\text{Base}]}$

Let a mol litre⁻¹ be concentration of salt, then concentration of base = $(0.29 - a)$ mol/L

$$4.4 = -\log 1.8 \times 10^{-5} + \log \frac{a}{(0.29-a)}.$$

$$\therefore a = 0.09.$$

$$[\text{Salt}] = 0.09 \text{ M}$$

$$\& [\text{Base}] = 0.29 - 0.09 = 0.20 \text{ M.}$$

हल. $\text{pOH} = -\log K_a + \log \frac{[\text{लवण}]}{[\text{क्षार}]}$

माना a मोल लीटर $^{-1}$ लवण की सान्द्रता हैं तो क्षार की सान्द्रता $= (0.29 - a)$ मोल/लीटर।

$$4.4 = -\log 1.8 \times 10^{-5} + \log \frac{a}{(0.29-a)}.$$

$$\therefore a = 0.09.$$

$$[\text{लवण}] = 0.09 \text{ M}$$

$$[\text{क्षार}] = 0.29 - 0.09 = 0.20 \text{ M.}$$

EXERCISE # 2

PART – I (भाग - I)

1. For the buffer solution of NH_3 & NH_4^+

$$\text{pH} = \text{pK}_a + \log \frac{[\text{NH}_3]}{[\text{NH}_4^+]} \Rightarrow 8.26 = 9.26 + \log \frac{(500 \times 0.01)}{\text{m. moles of } \text{NH}_4^+}$$

$$\Rightarrow \text{m. moles of } \text{NH}_4^+ = 50$$

हल. NH_3 व NH_4^+ के बफर विलयन के लिए

$$\text{pH} = \text{pK}_a + \log \frac{[\text{NH}_3]}{[\text{NH}_4^+]} \Rightarrow 8.26 = 9.26 + \log \frac{(500 \times 0.01)}{\text{NH}_4^+ \text{ के मिलीमोल}}$$

$$\Rightarrow \text{NH}_4^+ \text{ के मिली मोल} = 50$$

$$\therefore (\text{NH}_4)_2 \text{SO}_4 \text{ के आवश्यक मोल} = 0.025.$$

2. m. moles of HA taken (HA के लिए गये मिली मोल) $= 27 \times 0.1 = 2.7$



$$\text{pH} = \text{pK}_a + \log \frac{[\text{A}^-]}{[\text{HA}]} \Rightarrow 5 = \text{pK}_a + \log \left(\frac{1.2}{1.5} \right) = \text{pK}_a + \log \frac{4}{5}$$

$$\therefore \text{pK}_a = 5.1 \Rightarrow \text{K}_a = 8 \times 10^{-6}.$$

PART – II (भाग - II)

1. (i) to (v) are correct सही हैं।

$$\text{pH} = \text{pK}_a + \log \frac{[\text{C}_6\text{H}_5\text{COO}^-]}{[\text{C}_6\text{H}_5\text{COOH}]} \Rightarrow 4.5 = 4.2 + \log \left(\frac{V_2}{V_1} \right) \Rightarrow \frac{V_2}{V_1} = 2$$

$$\therefore \text{volume of C}_6\text{H}_5\text{COONa required} = V_2 = 62 \text{ mL}$$

$$\text{volume of C}_6\text{H}_5\text{COOH required} = V_1 = 31 \text{ mL.}$$

$$\text{हल. pH} = \text{pK}_a + \log \frac{[\text{C}_6\text{H}_5\text{COO}^-]}{[\text{C}_6\text{H}_5\text{COOH}]} \Rightarrow 4.5 = 4.2 + \log \left(\frac{V_2}{V_1} \right) \Rightarrow \frac{V_2}{V_1} = 2$$

$$\therefore \text{C}_6\text{H}_5\text{COONa का आवश्यक आयतन} = V_2 = 62 \text{ mL}$$

$$\text{C}_6\text{H}_5\text{COOH का आवश्यक आयतन} = V_1 = 31 \text{ mL.}$$

PART – III (भाग - III)

1. Sodium acetate and acetic acid solution and ammonia and ammonium chloride solution are the examples of acidic buffer.

हल. अम्लीय बफर के उदाहरण सोडियम एसीटेट व एसिटिक अम्ल विलयन तथा अमोनिया व अमोनियम क्लोराइड विलयन है।

EXERCISE # 3**PART – I (भाग - I)****JEE(MAIN) OFFLINE PROBLEMS**

1. For acidic buffer, $pH = pK_a + \frac{[A^-]}{[HA]}$

When the acid is 50% ionised, $[A^-] = [HA]$
given, $pK_a = 4.5$ $\therefore pH = 4.5$ or $pH = pK_a + \log 1$ or $pH = pK_a$
 $\therefore pOH = 14 - 4.5 = 9.5$.

हल. अम्लीय बफर के लिए, $pH = pK_a + \frac{[A^-]}{[HA]}$


जब अम्ल 50% तक आयनित होता है, $[A^-] = [HA]$ या $pH = pK_a + \log 1$ or $pH = pK_a$
दिया है, $pK_a = 4.5$ $\therefore pH = 4.5$ $\therefore pOH = 14 - 4.5 = 9.5$.

JEE(MAIN) ONLINE PROBLEMS

2. For acidic buffer (अम्लीय बफर के लिए)

$$pH = pK_a + \log \frac{[\text{Salt}]}{[\text{Acid}]}$$

$$6 = 5 + \log \frac{[\text{Salt}]}{[\text{Acid}]} \text{ or } \frac{[\text{Salt}]}{[\text{Acid}]} = \frac{10}{1}$$



Resulting solution will be buffer
परिणामी विलयन बफर होगा

$$\therefore pOH = pK_a + \log_{10} \frac{[\text{NH}_4\text{Cl}]}{[\text{NH}_3]} = 4.75 + \log_{10} \frac{5}{5} = 4.75 \quad \therefore pH = 14 - 4.75 = 9.25$$

4. $\text{H}_2\text{SO}_4 + 2\text{NH}_4\text{OH} \longrightarrow (\text{NH}_4)_2\text{SO}_4 + 2\text{H}_2\text{O}$



$$pOH = 4.7 + \log \frac{4}{2} = 5$$

$$pH = 14 - 5 = 9$$

IONIC EQUILIBRIUM-III

आयनिक सम्य-III

EXERCISE # 1

PART – I (भाग - I)

- A-1.** Assume a salt MX is x mol/L.




- A-2.** $MgF_2 \rightleftharpoons Mg^{2+} + 2F^-$

$S \quad 2S$

$$K_{sp} = 4S^3 = 4 \times (2 \times 10^{-3})^3 = 3.2 \times 10^{-8}$$

- A-4.** $Hg_2SO_4 \rightleftharpoons Hg_2^{2+} + SO_4^{2-}$

- B-1.** $Nal \longrightarrow Na^+ + I^-$




$$K_{sp} = x(0.1 + 2x)^2 = 8 \times 10^{-9} \text{ M}^3$$

$$\Rightarrow x \times 0.01 = 8 \times 10^{-9}$$

$$\Rightarrow x = 8 \times 10^{-7} \text{ M}$$

- B-2.** $Pb(NO_3)_2 \longrightarrow Pb^{2+} + NO_3^-$



$$K_{sp} = (x + 0.1)(2x)^2 = 8 \times 10^{-9}$$

$$\Rightarrow 4x^2 = 8 \times 10^{-9}$$

$$\Rightarrow x = 1.4 \times 10^{-4} \text{ M}$$

- B-3.** Because of hydrolysis of CO_3^{2-} .

PART – II (भाग - II)

- A-1.** $K_{sp} = 4 \times 10^{-12} = [M^+] [OH^-]^x = [10^{-4}] [x \cdot 10^{-4}]^x = x^x \cdot (10^{-4})^{1+x}$

$$\therefore x = 2$$

- हल.** $K_{sp} = 4 \times 10^{-12} = [M^+] [OH^-]^x = [10^{-4}] [x \cdot 10^{-4}]^x = x^x \cdot (10^{-4})^{1+x}$

$$\therefore x = 2$$

- A-2.** (a) $Li_3Na_3[AlF_6]_2 \longrightarrow 3Li^+ + 3Na^+ + 2[AlF_6]^{3-}$

$3s \quad 3s \quad 2s$


$$K_{sp} = (3s)^3 (3s)^3 (2s)^2 = 2916 \text{ s}^8.$$

- A-3.** Find solubility for each separately by $s^2 = K_{sp}$ for MnS and ZnS , $108s^5 = K_{sp}$ for Bi_2S_3 and $4s^3 = K_{sp}$ for Ag_2S .

हल. MnS तथा ZnS के लिए $s^2 = K_{sp}$, Bi_2S_3 के लिए $108s^5 = K_{sp}$ तथा Ag_2S के लिए $4s^3 = K_{sp}$ द्वारा प्रत्येक के लिए पृथक् विलेयता ज्ञात कीजिए।


- A-4.** For different salts such as AB , AB_2 , AB_3 ,etc. $K_{sp} = s^2$, $4s^3$, $27s^4$ respectively. If K_{sp} is same for different salts, then s is more for the salt in which produces more number of ions.

हल. AB, AB₂, AB₃,इत्यादि जैसे विभिन्न लवणों के लिए $K_{sp} = s^2, 4s^3, 27s^4$ होते हैं। यदि भिन्न लवणों के लिए K_{sp} समान होता है, तब s उस लवण के लिए अधिक होगा, जिसके लिए आयनों की संख्या अधिक हो।



$$\text{Here (यहाँ)} [\text{Ag}^+] = 2 \text{ s} = 2 \times 10^{-4} \text{ M} \Rightarrow \text{s} = 1 \times 10^{-4} \text{ M}$$

$$\therefore K_{\text{sp}} = 4\text{s}^3 = 4(3 \times 10^{-2})^3 = 1.35 \times 10^{-5}$$



$$\therefore \text{wt. of BaSO}_4 = 1 \times 10^{-5} \times 233 = 233 \times 10^{-5} \text{ g/litre.}$$

∴ Volume of water needed to dissolve 1 g BaSO₄ is equal to $\frac{1}{233 \times 10^{-5}} \approx 430$ litres

$$\text{हल. } \text{BaSO}_4 \text{ की विलेयता} = \sqrt{K_{sp}} = \sqrt{10^{-10}} = 1 \times 10^{-5} \text{ M}$$

$$\therefore \text{BaSO}_4 \text{ का द्रव्यमान} = 1 \times 10^{-5} \times 233 = 233 \times 10^{-5} \text{ ग्राम/लीटर}$$

$$\therefore 1 \text{ ग्राम BaSO}_4 \text{ को घोलने के लिए आवश्यक जल का आयतन = } \frac{1}{233 \times 10^{-5}} \approx 430 \text{ लीटर}$$

$$\mathbf{B-1.} \quad K_{sp} (\text{BaCrO}_4) = 2.4 \times 10^{-10} \text{ M}^2$$

$$[\text{CrO}_4^{2-}] = 6 \times 10^{-4} \text{ M} \quad \& \quad K_{\text{sp}}(\text{BaCrO}_4) = [\text{Ba}^{+2}][\text{CrO}_4^{2-}] = 2.4 \times 10^{-10}$$

$$\Rightarrow [\text{Ba}^+] \times 6 \times 10^{-4} = 2.4 \times 10^{-10}$$


$$[\text{Ba}^{+2}] = 4 \times 10^{-7} \text{ M}$$

Ans.

EXERCISE # 3

PART – I (भाग - I)

JEE(MAIN) OFFLINE PROBLEMS



$$\text{final conc. of } [\text{SO}_4^{2-}] = \frac{\text{MV}_1}{\text{V}_1 + \text{V}_2} = \frac{1 \times 50}{500} = 0.1\text{M}$$

Final conc. of $[Ba^{+2}]$ when $BaSO_4$ start precipitating

$$K_{SP} = Q_{SP} = [Ba^{+2}] [SO_4^{2-}]$$

$$10^{-10} = [\text{Ba}^{+2}] ($$


$$[\text{Ba}^{+2}] = 10^{-9}\text{M}$$

initial conc. [

$$M_1V_1 = M_2V_2$$

$$M_1 = \frac{M_2 V_2}{V_1} = \frac{10^{-9} \times 500}{450}$$

$$M_1 = 1.1 \times 10^{-9} M_{\odot}$$



$$[\text{SO}_4^{2-}] \text{ की अन्तिम सांदर्भता} = \frac{\text{MV}_1}{\text{V}_1 + \text{V}_2} = \frac{1 \times 50}{500} = 0.1\text{M}$$

$[Ba^{2+}]$ की अन्तिम संख्या जब $BaSO_4$ अवक्षेपित होना पारम्परिक होता है।

$$K_{SP} = Q_{SP} = [Ba^{+2}] [SO_4^{2-}]$$

$$10^{-10} = [Ba^{+2}] (0.1M)$$

$$[Ba^{+2}] = 10^{-9}M$$

[Ba⁺²] की प्रारम्भिक सांदर्भता

; प्रारम्भिक आयतन = 500 - 50 = 450 ml


$$M_1 V_1 = M_2 V_2$$

$$M_1 = \frac{M_2 V_2}{V_1} = \frac{10^{-9} \times 500}{450}$$

$$M_1 = 1.1 \times 10^{-9} M$$

JEE(MAIN) ONLINE PROBLEMS

2. $(K_{sp})_{PbCl_2} = 32 \times 10^{-9}$



$$K_{sp} = [Pb^{2+}][Cl^-]^2$$

$$K_{sp} = 4s^3 = 32 \times 10^{-9}$$

$$s^3 = 8 \times 10^{-9}$$

$$s = 2 \times 10^{-3} M$$

$$\frac{w}{M.w.} \times \frac{1}{V_L} = 2 \times 10^{-3}$$

$$\frac{0.1}{278} \times \frac{1}{V_L} = 2 \times 10^{-3}$$

$$V_L = \frac{0.1 \times 1000}{278 \times 2} = 0.18 L$$



100 mmol

$$\begin{matrix} & 2000 \\ & \hline 142 \end{matrix}$$

$$= 13.986 \approx 14 \text{ milimol}$$

14 mmol

28 mmol

$$\text{mass of } CaSO_4 = \frac{14 \times 136}{1000} = 1.9 \text{ g}$$

$$CaSO_4 \text{ का द्रव्यमान} = \frac{14 \times 136}{1000} = 1.9 \text{ g}$$

$$[OH^-] = \frac{28}{100} = 0.28 M$$

4. $8 \times 10^{-12} = (2S' + 0.1)^2 S'$

Or $S' = 8 \times 10^{-10} M$